



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91]

No. 91]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 1981/फाल्गुन 13, 1902

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 1981/PHALGUNA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च 1981

क्र. जा. 143 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बंगाल कोमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 58) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बंगाल कोमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से बंगाल कोमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 58) अभिप्रेत है ;

(ख) “भारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. सूचना के लिए समय सीमा :—किसी ऐसी सम्पत्ति का जो केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी में अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार, और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, भारणाधिकार या अन्य हित भारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे बंधक, भार, भारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि बन्धकदार या कोई भार, भारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला व्यक्ति, पर्याप्त कारणों से उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित हो गया था तो आयुक्त तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर सूचना से सकेगा उसके पश्चात् नहीं।

4. सूचना की रीति :—नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना, लेखबद्ध रूप में, आयुक्त, 153, लेनिनस रिंग, कलकत्ता-700013, के नाम से, क्षेत्र दो प्रतियां में भेजी जाएगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) बंधकदार, या किसी बन्धक भार, भारणाधिकार या अन्य हित रखने वाले का नाम, वर्णन और पूरा पता ;

(ख) उस कम्पनी का नाम, वर्णन और पूरा पता, जिसके विरुद्ध ऐसा बन्धक, भार, भारणाधिकार या अन्य हित प्रवर्तनीय है ;

- (ग) ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की रकम (भारतीय करेंसी में) ;
- (घ) ऐसी लिखत की, यदि कोई है, विशिष्टियां, जिससे ऐसा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रति-भूत किया गया है, जिसका समर्थन लिखत की प्रमाणित प्रति से किया जाएगा ;
- (ङ) रकम, यदि कोई, पहले ही प्राप्त की गई है, और उसकी विशिष्टियां ;
- (च) ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां ;
- (छ) अनुतोष जिसका दावा किया गया है ।

(2) प्रत्येक सूचना, ऐसा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर की जाएगी, उस पर तारीख डाली जाएगी, और सत्यापित की जाएगी ।

(3) सूचना संदाय-आयुक्त के 153, लेनिन सराण, कलकत्ता-700013 स्थित कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समय के दौरान फाइल की जाएगी या संदाय आयुक्त को उपयुक्त पत्र पर रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

[फा. सं. एल-25/1/81-डी वी.]

वी वेकितनारायनन, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Fertilizers)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1981

S.O. 143(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (58 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (58 of 1980);
- (b) "section" means a section of the Act.

3. Time-limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or a Government Company, and every person holding any charge, lien or other interest in or in relation to any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 19 of the Act :

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter.

4 Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing, addressed to the Commissioner, 153, Lenin Saranee, Calcutta-700013, sent in duplicate, and shall contain the following particulars, namely :—

- (a) name, description and full address of the mortgagee or other person holding any mortgage, charge, lien or other interest ;
- (b) name, description and full address of the Company against which such mortgage, charge, lien or other interest is enforceable ;
- (c) amount of such mortgage, charge, lien or other interest (in Indian Currency) ;
- (d) particulars of the instrument, if any, by which such mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument ;
- (e) amount, if any, already received, with particulars ;
- (f) any other particulars relevant to such mortgage, charge, lien or other interest ;
- (g) relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed, dated and verified by the person holding such mortgage, charge, lien or other interest, or by an agent duly authorised by such person.

(3) The intimations may be filed in the Office of the Commissioner of Payments, 153, Lenin Saranee, Calcutta-700013 on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner of Payments at the address given above by Registered Post with acknowledgement due.

[File No. L-25/1/81-DV]

V. VENKITANARAYANAN, Jt. Secy.